



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939

No. 221]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/CHAITRA 1, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

सा.का.नि. 279(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियम, 1922 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- मूल नियम, 1922 के नियम 56 में खण्ड (ख ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह कि किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप संवर्ग अध्यापन, अध्यापनेत्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सामान्य झूठी चिकित्सा अधिकारी, 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तारीख तक प्रशासनिक पद धारण करेंगे और उसके पश्चात् उनकी सेवाओं को गैर-प्रशासनिक पदों पर रखा जाएगा।”

[फा. सं. 25012/3/2013-स्था.(क-IV)]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र में तारीख 01 जनवरी, 1922 को प्रकाशित हुए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 23 जनवरी, 2017, द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd March, 2017

G.S.R. 279(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, 1922, namely :-

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Second Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Fundamental Rules, 1922, in rule 56, in clause (bb), the following proviso shall be inserted, namely :-
“Provided that notwithstanding anything contained in any other rules, Teaching, Non-Teaching, Public Health Specialists and General Duty Medical Officer sub-cadres of the Central Health Service shall hold the administrative posts till the date of attaining the age of 62 years and thereafter their services shall be placed in Non-Administrative positions.”.

[F. No. 25012/3/2013-Estt. (A-IV)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.

Note : The Fundamental Rules were published in the Gazette of India on the 1st January, 1922 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 69(E) dated the 23rd January, 2017.